

## २. भिक्षा - पात्र

प्रश्न ६- रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से क्यों झुक गया ?

उत्तर - प्रजा की सहायता में स्वयं को असमर्थ जानकर रत्नाकार सेठ का माथा लज्जा से झुक गया ।

प्रश् ७ - सुप्रिया कौन थी? उसने महात्मा बुद्ध से क्या कहा ?

उत्तर- सुप्रिया महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य अनाथपिंडद की पुत्री थी ।  
उसने कहा कि वह नगर के हर आँगन में अनाज पहुँचाने का भार लेती है ।

प्रश्न ८- सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने क्या किया ?

उत्तर - धनी सेठों ने उसकी सहायता करने में कोई कमी नहीं रखी जिस कारण उसका पात्र सदैव अनाज से भरा रहता था।

**(क) सही उत्तर चुनकर ( ✓ ) का निशान लगाओ -**

१)सेठ धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी चिंता क्या थी ?

राज्य का कर चुकाने की ( ✓ )

२) पाठ में 'तथागत' शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है ?

महात्मा बुद्ध के लिए ( ✓ )

३) अनाथपिंडद कौन था ?

सुप्रिया का पिता ( ✓ )

## भाषा ज्ञान

(क) नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखो -

- १) युवक - युवती
- २) शिष्य - शिष्या
- ३) भाग्यवती- भाग्यवान
- ४) महारानी - महाराज
- ५) सेवक - सेविका
- ६) पुरुष - स्त्री

(ख) दिए गए शब्दों के सामने सही समानार्थक शब्द छाँटकर लिखो-

- १) भगवान - ईश्वर
- २) हाथ - कर
- ३) मुख - मुँह
- ४) शिष्य - चेला
- ५) वर्षा - बारिश
- ६) अन्न- अनाज
- ७) आँख - नेत्र
- ८) द्वार - दरवाज़ा
- ९) धरती- वसुधा

(ग) दिए गए विशेष्यों के लिए उचित विशेषण पाठ से ढूँढ़कर लिखो -

<u>विशेषण</u>	<u>विशेष्य</u>	<u>विशेषण</u>	<u>विशेष्य</u>
१) विनम्र	स्वर	(२) कठोर	आवाज़
३) मधुर	मुस्कान	(४) धनी	सेठ
५) आधा	पेट	(६) बड़े	नगर

(घ) र और र् का प्रयोग करके शब्द पूरे करो-

प्रयोग, प्रजा, प्रश्न, प्राण

कर्म, धर्मपाल, वर्ष, आशीर्वाद

(ङ) वि तथा निर् उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ-

१) वि + ज्ञान - विज्ञान

२) निर् + जन - निर्जन

३) वि + शेष - विशेष

४) निर् + बल - निर्बल

५) वि + जय - विजय

६) निर् + धन - निर्धन

७) वि + देश - विदेश

८) निर् + दोष - निर्दोष

(च) प्रत्येक पंक्ति में बाईं ओर दिए गए शब्द के बहुवचन रूप पर

( ✓ ) लगाओ -

✓ स्त्री - स्त्रियाँ ( ✓ )

✓ आवाज़ - आवाजें ( ✓ )

✓ पौधा - पौधे ( ✓ )

✓ दरार - दरारें ( ✓ )